



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2005/फाल्गुन 2, 1926

No. 179]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2005/PHALGUNA 2, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2005

का.आ. 234 (अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में बाईपास, यदि कोई हैं के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का संनिर्माण (चौड़ा करने) के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (4), (5), (6) और (7) में उल्लिखित क्रमशः राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों की तत्स्थानी प्राविष्टे स्तम्भ (3) में विनोदित भूमि के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र.सं. (1)	सक्षम प्राधिकारी (2)	भूखण्ड (3)	राज्य (4)	जिला (5)	तहसील (6)	गाँव का नाम (7)
1.	अपर जिलाधिकारी (भू अर्जन), आगरा (उत्तर प्रदेश)	आगरा बाईपास रा.रा.-2 के 177 कि.मी. से शुरू होकर रा.रा.-3 के 14 कि.मी. पर मिलेगा	उत्तर प्रदेश	(1) आगरा	(1) किरावली	रैपुरा अहीर सीगंना कीथम कसीटी मई मई बुजुर्ग मंगूरा नानऊ जनूथा रायमा धारीली गोपऊ बाग कलॉ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						अभुआपुर अमैदोपुरा मोरी बरौली सगुनापुर नहचानी महुअर डाबली डाबर कराहरा नगला सिकरवार मनियान जिठोरा रिठोरा उजरई कचोरा जखा गुसामना
					(2) आगरा सदर	अकोला लालऊ पिनानी राम नगर मनकेंडा मुंडहेरा भोंडई कुठावली ककुआ कबूलपुर वाद इटौरा जारूआ कटरा वरारा वसई बिसहरा कलों भाहई रामपुरा
					(3) फतेहाबाद	मुबारकपुर उन्सरा सिर्गेचा सूरजपुरा
				(2) मथुरा	मथुरा	रेपुराजाट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	विशेष भूमि अध्यावित अधिकारी, झाँसी (उत्तर प्रदेश)	(1) ग्वालियर बाई पास सहित रा.रा.-75 के ग्वालियर-झाँसी सैक्शन के 84.80 कि.मी. से 103.00 कि.मी. तक (मध्यप्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा)	उत्तर प्रदेश	झाँसी	झाँसी	बूढ़ा नयागाँव सिमरघा रुंद करारी करारी अम्बावाय कलोथरा चंदरा
		(2) झाँसी बाईपास सहित रा.रा.-26 के झाँसी-लालितपुर सैक्शन का 0.00 कि.मी. से 131.70 कि.मी.	उत्तर प्रदेश	झाँसी	झाँसी	लहरगिर्द पाली पहाडी गुढा बलोरा सिजवाहा अठोंदना डोंगरी पठारी रुंदबलोरा डगरीया रुंद उर्फ हरचरणपुरा बिजौली खैलार सिमरावारी गणेशपुरा मानपुर बबीना मनकुआ घिसौली बडौरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व) ललितपुर (उत्तर प्रदेश)	झाँसी बाईपास सहित रा.रा.-26 के झाँसी - ललितपुर सैक्शन का 0.00 कि.मी. से 131.70 कि.मी	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	(1) तालबेहट	झरर कडेसराकला तालबेहट तरगुआ बम्होरीसर ककडारी तेरई फाटक हर्षपुर जमालपुर टेटा असऊपुरा बॉसी
					(2) ललितपुर	लखनपुरा भौवसिल नन्दनवारा विधाखेत महर्षा अमरपुर रोडा चंदेरा ललितपुर ललितपुर सदर मसौरा कलाँ मसौरा खुर्द घटवार खडेरा भंसाई बमरोला कुमरौल बिरधा पटउवा बंगरिया बेटना उमरिया रामनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(3) महारानी	बम्हौरी-सिंदवाहा जमौरा गौना नाराहट
4.	अपर कलेक्टर, मुरैना (मध्य प्रदेश)	(1) रा. रा.-3 के धौलपुर - ग्वालियर सैक्शन का 60 कि.मी. से 61 कि.मी	मध्यप्रदेश	मुरैना	मुरैना	भानपुर जैतपुर चम्बल पिपरई
		(2) ग्वालियर बाईपास सहित रा. रा.-75 के ग्वालियर -झाँसी सैक्शन का 0.00 कि.मी. से 84.80 कि.मी.	मध्यप्रदेश	मुरैना	मुरैना	डोलसा मलखान पुरा खेरिया चुनेटी करगनवा खरका टिकरी नरेशवर
5.	भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)	ग्वालियर बाईपास सहित रा. रा.-75 के ग्वालियर - झाँसी सैक्शन का 0.00 कि.मी. से 84.80 कि.मी. (मध्यप्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा)	मध्यप्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	बरुवा ब्रह्म का पुरा सुसेरा दिलावर का पुरा कुंवरपुर लक्ष्मणगढ़ बरेठा खेरिया मिरघा सुरोन शेखुपुरा बेहटा मेथाना चक केशोपुर जहाँगीरपुर खेरिया पदमपुर खुरेरी खेरिया मोदी बडागाँव मोहनपुर सीरोल

5706P/05-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						जरगा मेहरा (हुरावली) डोंगरपुर नेनागर रमुआ लखनोती कंला लखनोती खुर्द सिकरोंदा अदुपुरा जगीर डंगसरकार
6.	भू धर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, डबरा (मध्यप्रदेश)	रा.रा.-75 के ग्वालियर बाईपास सहित - ड्राँसी सैक्शन का 0.00 कि.मी. से 84.80 कि.मी.	मध्यप्रदेश	ग्वालियर	(1) डबरा	जोरासी मकोडा बैरागढ़ कल्याणी टेकनपुर बोना लखिया चकमाधोपुर घनंजपुरा अकवई समुधन पठा पनीहार अन्नतपथ शेकरा चक इसलामपुर सिमरीया ताल सुलतानपुर खेडीनटवा निमेरा चकब्रिजपुर अरू चकसेहरई पिपई रामगढ़ डबरा सेहरई बुजुर्ग गेरोल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						तिघरू सोसा कररा किशनपुर कंचनपुरा(मगरोडा) हरीपुर चाँदपुर
					(2) भितरवाद	बघेरा मनपुर भरतरी
7.	अपर कलक्टर और भू अर्जन अधिकारी, जिला दलिया (मध्यप्रदेश)	ग्वालियर बाईपास सहित रा.रा.-75 के ग्वालियर - झाँसी सैक्शन का 0.00कि.मी. से 84.80 कि.मी.	मध्यप्रदेश	दतिया	दतिया	गोरा (गोरा घाट) कोटरा गुलियापुरा बडेरा उपरई डबरा बग सीतापुर घुटरी विजयपुर रिचहारा दतिया गोविन्दपुर दिवान का रूद डगुरई राम नगर चितुआ लराइता गंधारी काला पहाड चिरुला

[फा. सं. भाराप्र/30030/एनएचडीपी/पीएच-II/भू.अ./एनएस-1/2]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th February, 2005

S.O. 234(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the officers mentioned in column 2 of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to the States, Districts, Tehsils and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening) of National Highways, including construction of bypasses or realignments, if any, in the States of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

SCHEDULE

S.No	Competent Authority	Stretch of Land	State	District	Tehsil	Name of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Additional Collector (Land Acquisition), Agra (Uttar Pradesh)	Agra Bypass takeoff from km 177 of NH-2 and merging in km 14 of NH-3	Uttar Pradesh	(1) Agra	(1) Kiraoli	Raipura Ahir Singna Kitham Kasoti Mai Mai Bujurag Mangura Nanau Janutha Raibha Dharoli Gopau Bagh Kalan Abhuapur Abhedhopura Mori Barauli Sagunapur Nahchani Mahuar Dawli Daber Karahara Nagla Sikarwar Maniyan Jitora Rithura Ujarai Kachaura Jakha Puramana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(2) Agra Sadar	Akola Lalau Pinani Ram -Nagar Mankenda Mundhera Bhandai Kuthawali Kakua Kaboolpur Bad Itaura Jaruakatra Barara Basai Bishara Kalan Bhahai Rampura
					(3) Fatehabad	Mubarakpur Usara Sigaincha Surajpura
				(2) Mathura	Mathura	Raipura Jat
2.	Special Land Acquisition Officer, Jhansi (Uttar Pradesh)	(1) km 84.80 to km 103.00 (Madhya Pradesh /Uttar Pradesh border) of Gwalior-Jhansi Section of NH-75	Uttar Pradesh	Jhansi	Jhansi	Boodha Nayagaon Simardha Rudra Karari Karari Ambawai Kalothora Chandra
		(2) km 0.00 to km 131.70 of Jhansi-Lalitpur Section of NH-26 including Jhansi Bypass	Uttar Pradesh	Jhansi	Jhansi	Lehargird Pali Pahadri Gudha Valora Sijwaha Athodhna Dongi Pathari Roondh Valora Dangaiyarund alias Harcharanpura Bijoli Khailar Simravari Ganeshpura Manpur Babina Mankua Ghisauli Badora

57062/05-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Additional Collector (Finance and Revenue), Lalitpur (Uttar Pradesh)	km 0.0 to km 131.70 of Jhansi-Lalitpur Section of NH-26 including Jhansi Bypass	Uttar Pradesh	Lalitpur	(1) Talbehat	Jharar Kadheserakala Talbehat Targooa Bamborisar Kakrari Terai Fatak Harshpur Jamalpur Tenta Asaupura Bansi
					(2) Laitpur	Lakhanpura Bhorsil Nadanwara Vighykheth Mhara Amarpur Rodna Chandera Lalitpur Lalitpur Sadar Masaura Kalan Masaura Khurd Ghatwar Khadera Bhainsai Bamrola Kumraul Birdha Patauwa Bangaria Betna Umaria Ramnagar
					(3) Maharauni	Vamhauri- Sindhwa Jamaura Gauna Narahat
4.	Additional Collector, Morena (Madhya Pradesh)	(1) km 60.00 to km 61.00 of Dholpur - Gwalior section of NH-3	Madhya Pradesh	Morena	Morena	Bhanpur Jaitpur Chambal Piprai
		(2) km 0.0 to km 84.80 of Gwalior-Jhansi Section of NH-75 including Gwalior Bypass	Madhya Pradesh	Morena	Morena	Dolsa Malkhan pura Kheriya Chuneti Karganwa Kharka Tikri Nareshwar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Land Acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Gwalior (Madhya Pradesh)	km 0.00 to km 84.80 (Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border) of Gwalior-Jhansi Section of NH-75 including Gwalior Bypass	Madhya Pradesh	Gwalior	Gwalior	Bararwa Bramha ka pura Susera Dilawar ka pura Kunwarpur Lakshmangarh Baretha Kheriya Mirdha Suron Shekhupura Behta Maithana Chak Keshopur Jahageerpur Kheriya Padampur Khureri Kheriyamodi Baragaon Mohampur Sirol Jarga Mahra (Hurawali) Dongarpur Nainagar Ramana Lakhnauti kalan Lakhnauti khurd Sikroda Adupura jageer Dang sarkar
6.	Land Acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Dabra (Madhya Pradesh)	km 0.00 to km 84.80 of Gwalior-Jhansi Section of NH-75 including Gwalior Bypass	Madhya Pradesh	Gwalior	(1) Dabra	Jorasi. Makora Bairagarh Kalayani Tekenpur Bauna Lakhiya Chak Madhopur Ghamandpura Akhai Samudhan Patha (Pamihaar) Anant Paith Sekra

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Chak Islampur Simaria tal Sultanpur Khedi natwa Nimera Chak Brijpur Arru Chak Sehrai Pipai Ramgarh Dabra Sehrai Bujurgh Gairol Tigharu Sosa Karra Kichanpur Kanchanpura (Magrora) Haripur Chandpur
					(2) Bhitwar	Baghera Manpur Bharthari
7.	Additional Collector and Land Acquisition Officer, District Datia (Madhya Pradesh)	km 0.00 to km 84.80 of Gwalior-jhansi Section of NH-75 including Gwalior Bypass	Madhya Pradesh	Datia	Datia	Gora (Goraghat) Kotra Guliyapura Badera Uprai Dabra bag Sitapur Ghutari Vijaypur Richhari Datia Govindpur Diwan ki rund Dugurai Ram nagar Chitua Larayta Gandhari Kala Pahad Chirula

[F. No. NHAI/30030/NHDP/PH-II/LA/NS-1/2]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.